

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400001 Scrip Code – 530517	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Scrip Code – RELAXO
--	---

Subject: Newspaper Advertisement of Notice of Board Meeting schedule to be held on 2nd day of November, 2019

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed newspaper advertisement of notice of Board Meeting which is scheduled to be held on 2nd day of November, 2019, to consider, review, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2019, published in Financial Express (English) and Jansatta (vernacular), Delhi Edition on 23rd October, 2019.

Kindly take the above information on record and acknowledge the same.

Thanking You,

For **Relaxo Footwears Limited**



Vikas Kumar Tak
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: FCS 6618

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



India considers trade curbs on Turkey, Malaysia over Kashmir

VRISHTI BENIWAL
New Delhi, October 22

INDIA IS CONSIDERING placing curbs on some imports from Turkey and Malaysia, in response to their leaders' comments on the autonomy of Kashmir, people familiar with the matter said.

The central government is exploring the possibility of both tariff and non-tariff measures to limit import of goods from the two countries, the people said, asking not to be

identified as a final decision is to be taken. The options include stringent quality tests and a safeguard tax in addition to existing levies, they said.

While India's bilateral trade with the two was only 2.9% of its total in the fiscal year ended March 31, New Delhi enjoys a trade surplus with Turkey and runs a deficit with Malaysia on account of its reliance on imported palm oil. Futures in Kuala Lumpur fell on Tuesday after an influential Indian

processors' group asked its members to refrain from buying the tropical oil from the second-largest producer.

Spokespersons for finance and commerce ministries

couldn't immediately be reached for a comment.

India last month increased customs duty on refined palm oil imports from Malaysia by 5% for six months as a measure to

safeguard the domestic industry. The duty could be further increased, the people said.

Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad on Tuesday said the country won't bring the

palm oil issue with India to the World Trade Organization "at the moment" and he won't retract his comments claiming India had "invaded and occupied" Kashmir.—BLOOMBERG

एम एस टी सी लिमिटेड
MSTC LIMITED
(भारत सरकार का उद्योग)
(A SOUV OF INDIA ENTERPRISE)

JEEVAN VIKAS BUILDING, 30/31 A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI - 110002
Tel.: 23214201, 23213945, Fax: 23216713

e-AUCTION PROGRAMME

MSTC WILL HOLD E-AUCTION OF BUILDING AND STANDING STRUCTURE AT PLOT NO. 142D/1 ON 05.11.2019 ON LEASE BASIS ON BEHALF OF NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY. FOR DETAILS PLEASE CONTACT MR. SOURABH KUMAR (MSTC), MOBILE NO. 9811146516, R. P. VERMA (NSEZ), TELEPHONE NO. 0120-2567270. For details log on to www.mstcecommerce.com or www.mstcindia.co.in.

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Plaza, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085
CIN No: L74899DL1984PLC019097, Ph: 011-46909500, Fax: 011-46909592
E-mail: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to applicable Regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that meeting of Board of Directors of Relaxo Footwear Limited is scheduled to be held on Saturday, 27th day of November, 2019 at 12:00 noon at Registered Office of the Company at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Plaza, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 inter-alia to consider, review, approve and take on record Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2019.

The information contained in this notice is available on the Stock Exchange website, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

By order of the Board of Directors
For Relaxo Footwear Limited
Sd/-
Vikas Kumar Tadi
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 22.10.2019

Monnet Ispat and Energy Limited

Corporate Office : Art Guild House, A-Wing, 2nd Floor, Unit No-13, Phoenix Mall Compound, LBS Marg, Kuria West, Mumbai-400070
Regd. Office : Monnet Marg, Mandir Hasaud, Raipur - 492 101 (Chhattisgarh)
Tel. No. +91 22 40435999; E-mail: isc_monnet@aionjsw.in Website: www.aionjsw.in CIN: L02710CT1990PLC009826

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER, 2019
(₹ in crores except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Six months ended		Year ended	Quarter ended		Six months ended		Year ended		
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2018		31.03.2019	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018		30.09.2018	31.03.2019
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total revenue from operations	660.44	777.09	419.72	1,437.53	852.77	1,879.41	660.44	777.09	419.72	1,437.53	852.77	1,879.41
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(111.44)	(135.24)	(86.75)	(246.68)	(476.49)	(693.19)	(113.87)	(135.95)	(90.51)	(249.82)	(481.28)	(696.57)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(111.44)	(135.24)	(2,859.56)	(246.68)	(3,249.30)	(3,461.11)	(113.87)	(135.95)	(2,929.63)	(249.82)	(3,322.19)	(3,552.24)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(111.44)	(135.24)	(2,859.56)	(246.68)	(3,249.30)	(3,461.11)	(113.87)	(135.95)	(2,929.63)	(249.82)	(3,322.19)	(3,552.24)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(115.20)	(135.03)	(2,859.27)	(250.23)	(3,250.88)	(3,494.15)	(126.25)	(133.37)	(2,943.51)	(259.62)	(3,352.28)	(3,575.32)
6	Equity Share Capital	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55	469.55
7	Other equity	-	-	-	-	-	982.27	-	-	-	-	-	698.48
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -												
	Basic (Rs.)	(2.37)	(2.88)	(87.60)	(5.25)	(123.11)	(94.44)	(2.43)	(2.90)	(89.75)	(5.32)	(125.87)	(96.92)
	Diluted (Rs.)	(2.37)	(2.88)	(87.60)	(5.25)	(123.11)	(94.44)	(2.43)	(2.90)	(89.75)	(5.32)	(125.98)	(96.92)

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly and half year ended results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results including notes thereto are available on the website of the Company (www.aionjsw.in) and stock exchanges i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 21st October, 2019. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review Report of the results for the quarter and six months ended 30th September, 2019

For Monnet Ispat and Energy Limited
D. Ravichandrar
Whole-Time Director
DIN: 03298700

Date: 21.10.2019
Place: Mumbai

Subros Limited

CIN: L74899DL1985PLC020134
Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
Tel. No.: 011-23414946, Fax No.: 011-23414945; Website: www.subros.com; Email: rakesh.arora@subros.com

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER, 2019

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		QUARTER ENDED (UNAUDITED)		HALF YEAR ENDED (UNAUDITED)		YEAR ENDED (AUDITED)	QUARTER ENDED (UNAUDITED)		HALF YEAR ENDED (UNAUDITED)		YEAR ENDED (AUDITED)		
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2018		31.03.2019	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018		30.09.2018	31.03.2019
1	Total Income from operations	49,648	57,224	56,403	106,872	109,572	212,448	49,648	57,224	56,403	106,872	109,572	212,448
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,908	2,141	3,182	4,049	6,014	11,731	1,919	2,115	3,189	4,034	6,039	11,742
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,908	6,270	3,182	8,178	5,680	11,397	1,919	6,244	3,189	8,163	5,705	11,408
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,324	4,176	2,381	5,500	4,274	7,613	1,335	4,150	2,388	5,485	4,299	7,624
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,272	4,151	2,380	5,423	4,272	7,410	1,284	4,123	2,382	5,407	4,291	7,419
6	Equity Share Capital	1,305	1,305	1,200	1,305	1,200	1,305	1,305	1,305	1,200	1,305	1,200	1,305
7	Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)												
	(a) Basic (not annualised) :	2.03	6.40	3.97	8.43	7.12	12.35	2.05	6.36	3.98	8.41	7.17	12.37
	(b) Diluted (not annualised) :	2.03	6.40	3.97	8.43	7.12	12.35	2.05	6.36	3.98	8.41	7.17	12.37
8	Net Worth	-	-	-	72,414	43,952	68,013	-	-	-	-	-	-
9	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt (NCD)	-	-	-	1,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-
10	Debt Equity Ratio	-	-	-	0.31	0.82	0.36	-	-	-	-	-	-
11	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	1,000	1,250	1,000	-	-	-	-	-	-
12	Debt Service Coverage Ratio	-	-	-	0.95	1.35	0.95	-	-	-	-	-	-
13	Interest Service Coverage ratio	-	-	-	10.92	7.61	7.58	-	-	-	-	-	-

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33, 52 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on website of the Stock Exchange (s) www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.subros.com.
- There was a fire accident in one of the plants of the Company situated at Manesar on 29th May, 2016. The fire had severely impacted the building, stocks, plant & machinery. These assets were adequately insured with reinstatement clause and a claim was made with the Insurance Company. Special/urgent actions to the customer post fire incident had resulted into additional costs which were included under the head Exceptional Items in the Statement of Profit and Loss in the earlier years. An amount of ₹ 5,067 Lakhs has been assessed, settled and received during the quarter ended 30th June, 2019 and accordingly ₹ 4,129 Lakhs, over and above ₹ 938 Lakhs disclosed as recoverable under the head "Other Financial Assets" as on 31st March, 2019, has been disclosed as an income under the head Exceptional Items for the quarter ended 30th June, 2019 and six months ended 30th September, 2019.
- Pursuant to the approval of Board of Directors in their meeting held on 28th May, 2018 for closure of Company's overseas subsidiary Thai Subros Ltd. and filing of liquidation application in Thailand on 9th January, 2019, the management has assessed the recoverability of their investment in subsidiary and recognised the provision for diminution in the value of its investment in subsidiary amounting to ₹ 21.35 Lakhs during the year ended 31st March, 2019. The liquidation of the subsidiary has been completed on 1st August, 2019 vide Certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce, Thailand and the Company has recognized a gain of ₹ 0.42 Lakhs during the quarter and six months ended 30th September, 2019 included in "Other Income" on account of money realized over and above the carrying value of its investment in subsidiary.
- Effective 1st April, 2019, the Company has adopted Ind AS 116 "Leases" and applied the same to all lease contracts existing on 1st April, 2019 retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognised at the date of initial application, with right-of-use asset recognised at an amount equal to the existing liability, adjusted by the prepaid lease rent. In the statement of profit and loss depreciation for the impact-of-use assets and finance cost for interest accrued on lease liability is being accounted for as against operating lease rent included under Other Expenses earlier. This change did not have a material impact on the above standalone financial results for the quarter and six months ended 30th September, 2019.
- The consolidated financial results include the results of the following entities namely, Thai Subros Limited (Subsidiary) for the period upto 1st August, 2019 and Denso Subros Thermal Engineering Centre India Private Limited (Joint Venture).
- Pursuant to The Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance) dated 20th September, 2019, the Company has decided to continue to follow the tax rates which were applicable prior to issuance of the Ordinance. Accordingly, there is no impact on current and deferred tax for the quarter and six months ended 30th September, 2019.
- Additional disclosure as per Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 have been made in financial results and can be accessed on website of stock exchange(s) and also on www.subros.com.

For and on behalf of the Board of Directors
SUBROS LIMITED

RAMESH SURI
CHAIRMAN

Place : New Delhi
Date : 22.10.2019

Thank You Shareholders
Rights Issue Oversubscribed
Shri Keshav Cements and Infra Limited

SKCIL | 530977 | INE260E01014

Keshav CEMENT
Trust - Confidence - Forever

NOTICE

NOTICE IS HEREBY given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Wednesday, November 13, 2019 at the Executive Club, 439, Village Shaheedpur, Fatehpur Beri, New Delhi - 110074, at 9:00 A.M. The Notice setting out the Business to be transacted at the meeting together with a copy of Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 has been sent to all members at their registered address/e-mail ID.

The notice of the meeting and the explanatory statement along with Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and Auditor's Report for the financial year ended 31st March, 2019 has been sent electronically to those members whose email addresses are registered with the Depository participant. For members who have not registered their email addresses or have requested for hard copies, the Annual Report has been sent at their registered address by courier.

NOTICE IS ALSO HEREBY given that pursuant to section 91 of The Companies Act, 2013 read with regulation 42 of the listing regulation, Register of Members and Shares Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, November 7, 2019 to Friday, November 8, 2019 (both days inclusive).

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by Link Intime India Private Limited (LIPL) and the business may be transacted through such voting. The e-voting period commences on Sunday, 10th November, 2019 at 09:00 A.M to Tuesday, 12th November, 2019 at (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL thereafter.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Wednesday, 6th November, 2019 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 6th November, 2019, may obtain the user ID and password by sending a request at investors@csild.com. The detailed procedure for obtaining the user ID and password is also disclosed in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website at www.csild.com. If the member is already registered with the LIPL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The facility of voting through polling paper shall also be available at the meeting. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The Notice containing details of electronic voting has been dispatched to all members and on the website of NSE & BSE.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Shashi Shekhar, Practicing Company Secretary (Membership No. 37987), as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent manner.

In case you have any queries/issues/grievances connected with e-voting, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at <https://investoraskedquestions.com>, under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call us - Tel: 022-49186000 or contact Ms. Harsha Sharma, Company Secretary at Corporate Office FCS House, Plot no. 63, NSEZ, Noida Dadri Road, Phase II, Gautam Buddha Nagar, Noida-201305, or at phone no. 0120-4635900 or e-mails at investors@csild.com.

By the order of the Board of Directors
Harsha Sharma
Company Secretary

Date : 14/10/2019
Place : Noida

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

Wazirabad Road Branch
Garima Garden, Wazirabad Road,
Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201005

Phone No. 0120-2898703 Email: wazirabadroad.ghaziabad@bankofindia.co.in
Ref. No.WR:ADV:2019:20:7511-S1 & 3011-S1 Date: 18-10-2019

POSSESSION NOTICE (For Immovable property)
(See Rule 8(1))

Whereas the undersigned being the authorized officer of the BANK OF INDIA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with (rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a) Demand Notice Dated 03.06.2019 calling upon the borrower - M/S GUPTA FOOTWEAR (PROP. LT. SH. NARESH CHAND GUPTA), A - 237, SECTOR- 4, LAJPAT NAGAR, SAHIBABAD, GHAZIABAD (UP) - 201005 & ALSO AT: SHOP NO.44/21, TURAB NAGAR MARKET, GHAZIABAD (UP) and guarantor-MRS. DIKSHA GUPTA W/O LT. SH. NARESH CHAND GUPTA A-237, GF, SECTOR-4, LAJPAT NAGAR, GHAZIABAD (UP), to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 26,01,044.93 (RS. TWENTY SIX LACS, ONE THOUSAND, FORTY FOUR & PAISA NINETY THREE ONLY) as on 03.06.2019 (incl. intt. upto 20.05.2019) with further interest w.e.f. 21.05.2019, costs expenses and other incidental charges etc. thereon within 60 days from the date of the said notice and b) Demand Notice Dated 01.08.2019 calling upon the borrowers - MRS. DIKSHA GUPTA W/O LT. SH. NARESH CHAND GUPTA, LR. OF LT. SH. NARESH CHAND GUPTA THROUGH HIS MOTHER & NATURAL GUARDIAN - MRS. DIKSHA GUPTA & LR. OF LT. SH. NARESH CHAND GUPTA - RIDHIMA D/O LT. SH. NARESH CHAND GUPTA THROUGH HER MOTHER & NATURAL GUARDIAN - MRS. DIKSHA GUPTA, ALL AT : A - 237, LAJPAT NAGAR, SAHIBABAD - GHAZIABAD (UP), to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 28,05,101.47 (RS. TWENTY EIGHT LACS, FIVE THOUSAND, ONE HUNDRED ONE & PAISA TWENTY SEVEN ONLY) AS ON 01.08.2019 (INCL. INTT. UPTO 16.07.2019) with further interest w.e.f. 17.07.2019, costs expenses and other incidental charges etc. thereon within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers/ Guarantor having failed to repay the amount in both of the Loan accounts (Cash Credit & Housing Loan account respectively), notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantor in both of the Loan accounts (Cash Credit & Housing Loan account respectively) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property, described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub - Sec. (4) of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 18th day of October 2019.

The Borrowers/ Guarantor in both of the Loan accounts (Cash Credit & Housing Loan account respectively) and the public in general is hereby cautioned not to deal with said Property & stocks and any dealings with the Property & Stocks will be subject to the charge of the BANK OF INDIA, WAZIRABAD ROAD BRANCH, GARIMA GARDEN, WAZIRABAD ROAD, SAHIBABAD, GHAZIABAD (U.P.) - 201005, a) for an amount of Rs. 26,01,044.93 (RS. TWENTY SIX LACS, ONE THOUSAND, FORTY FOUR & PAISA NINETY THREE ONLY) as on 03.06.2019 (incl. intt. upto 20.05.2019) with further interest w.e.f. 21.05.2019, costs, expenses and other incidental charges etc. thereon, in Loan account (Cash Credit) - M/S Gupta Footwear (Prop. Lt. Mr. Naresh Chand Gupta) and b) for an amount of Rs. 28,05,101.47 (RS. TWENTY EIGHT LACS, FIVE THOUSAND, ONE HUNDRED ONE & PAISA FORTY SEVEN ONLY AS ON 01.08.2019 (INCL. INTT. UPTO 16.07.2019) with further interest w.e.f. 17.07.2019, costs, expenses and other incidental charges etc. thereon in Loan account (Housing Loan) - Mrs. Diksha Gupta and LR. Of Lt. Sh. Naresh Chand Gupta - Ujjawal Gupta s/o Lt. Sh. Naresh Chand Gupta Through His Mother & Natural Guardian - Mrs. Diksha Gupta & LR. of Lt. Sh. Naresh Chand Gupta - Ridhima D/o Lt. Sh. Naresh Chand Gupta Through Her Mother & Natural Guardian - Mrs. Diksha Gupta.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub - section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable property

a) All That Part & Parcel Of Equitable Mortgage Property Situated At House No. A - 237, Ground Floor, Without Roof Righths (Double Storey), Laipat Nagar, Sector - 4, Ghaziabad (Up) - 201005, Admeasuring Area 95.20 Sq. Mtrs. In The Name Of Lt. Sh. Naresh Chand Gupta & Mrs. Diksha Gupta (Borrowers).
Date: 18-10-2019 Place: Ghaziabad Authorised Officer, Bank of India

Thoroughly check the background and performance of the entity offering the scheme. Read the terms and conditions properly.

Invest your money wisely!

For more details, give a missed call to 14440
or visit <https://rbi.org.in/rvr>
For feedback on this advertisement, write to rbikehtahai@rbi.org.in

Deepak Hooda
Cricketer and RBI Employee

Ankit Rajput
Cricketer and RBI Employee

Issued in public interest by
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI Kehta Hai...
Jaankaar Baniye,
Satark Rahiye!

लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की सेंसरशिप : धनखड़

कोलकाता, 22 अक्टूबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपनी बैठक में शामिल होने से सरकारी अधिकारियों के इनकार के बाद कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की सेंसरशिप है। जिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रशासनिक दौरे को देखते हुए राज्यपाल को बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। धनखड़ ने उनके इनकार को 'असंवैधानिक' बताया है।

राज्यपाल ने पिछले हफ्ते उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, नौकरशाहों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने की इच्छा जताई थी।

उन्होंने मंगलवार से यहां का दौरा शुरू किया है। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल कार्यालय को सोमवार शाम दो

जिलों के मजिस्ट्रेटों के पत्र मिले जिनमें कहा गया था कि अधिकारी मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्तता के चलते राज्यपाल को बैठकों में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों ने शोभा शिन्धु अधिकारियों ने कहा कि उनके (राज्यपाल) दौरे के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

राज्यपाल ने फोन पर बताया, 'जिला अधिकारियों के पत्र देखकर मैं हैरान हूँ। पत्रों में उन्होंने बैठकों में शामिल होने में असमर्थता जताई है वह भी तब जबकि उन्हें चार दिन पहले इस बाबत सूचना दी गई थी। पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी तरह की सेंसरशिप है।' उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद मैं जिलों का अपना दौरा जारी रखूंगा।'

बाद में संवाददाताओं से बातचीत में धनखड़ ने आश्चर्य जताया कि जब मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर होती हैं तो क्या राज्य सरकार अवकाश पर चली जाती है। धनखड़ ने कहा, 'क्या यह उचित है कि जब राज्यपाल किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो इस पर सेंसरशिप हो या फिर राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत हो? मैं राज्य सरकार के मातहत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से यह असंवैधानिक है।'

इस घटनाक्रम पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार जिस तरह से राज्यपाल का अपमान कर रही है, ऐसा पूरे देश में कहीं भी, पहले कभी भी नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, 'कुछ संवैधानिक नियम-कायदे होते हैं जिनका पालन हर राज्य सरकार को करना होता है। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उससे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार ने नए नियम कायदे गढ़ लिए हैं और वह भारत के संविधान का पालन नहीं करना चाहती है।'

इस मुद्दे पर तृणमूल के नेतृत्व ने कोई टिप्पणी नहीं की है। धनखड़ और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है।

तिवारी की हत्या के आरोपी ने सहकर्मी के आधार कार्ड पर लगाई थी खुद की फोटो

सूरत, 22 अक्टूबर (भाषा)।

कमलेश तिवारी हत्या मामले में मुख्य संदिग्ध सूरत निवासी अशफाक शेख ने मारे गए नेता को हिंदू समाज पार्टी (एचएसपी) में शामिल होने के लिए अपने सहयोगी के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उसकी पहचान हासिल की।

एचएसपी के अध्यक्ष तिवारी (45) की गत 18 अक्टूबर को लखनऊ के नाका हिंडोला क्षेत्र में स्थित उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।

इससे पहले वह हिंदू महासभा के एक गुट से जुड़े हुए थे। शेख और एक अन्य फरार संदिग्ध मोहनदीन हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। शेख ने कथित तौर पर अपने सहयोगी रोहित सोलंकी की फोटो को अपने आधार कार्ड पर लगा दिया। उसने आधार कार्ड पर जन्मतिथि को भी बदल दिया। सोलंकी ने पत्रकारों को बताया कि उसे हत्या मामले में उसका नाम आने से पहले शेख के कृत्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, 'मैं एक फार्मा कंपनी के लिए एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और अशफाक शेख मेरे वरिष्ठ थे। क्योंकि वह क्षेत्रीय प्रबंधक थे, इसलिए मैंने उन्हें कंपनी की नीति के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अपने आधार कार्ड को एक प्रति सौंपी। अब मुझे पता चला कि मेरी पहचान हासिल करने के लिए उसने आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया।' सोलंकी ने कहा, 'अशफाक ने आधार कार्ड पर मेरी फोटो बदल दी। उसने जन्म तिथि भी बदल दी।'

Asra Capital Limited
CIN: L69993DL1983PLC016453
Registered Office: 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110 001
Tel: +91-11-2334 8554
Email: asiacapitallimited@gmail.com
Website: www.asiacapital.in

NOTICE
Notice is hereby given that 05/20/2019 meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th October 2019 at 12 noon at the Corporate Office of the Company at 203 Azz Avenue, CTS-1381, Near Railway Crossing, Vaidhobhai Patel Road, Vile Parle (W), Mumbai-400 056, Inter-alia to consider and approve the un-audited financial results for the quarter and half year ending 30th September 2019.

For Asia Capital Limited
Sd/-
Kaven Ghosh
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 22-10-2019
Place: Delhi
2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110 001

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Sector-3, Rohini, Delhi-110085
CIN No: L74899DL1984PLC019097, Ph: 011-46809000, Fax: 011-46800692
E-mail: ril@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

सूचना
एलएनएल सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आदेशक उद्योगों) विनियम, 2015 के तहत विनियमन (सी) के अनुसार प्रार्थना की अनुसार नूतन रिसेल्वे फुटवेयर लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 2 नवंबर, 2019 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - अग्रवाल सिटी स्क्वायर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली - 110085 में होगी जिसमें अन्य कार्य के अलावा 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनअंकेखित वित्तीय परिणामों पर विचार, समीक्षा, अनुमोदन और उन्हें रिसेल्वे करने का काम किया जाएगा। इस नोटिस में निहित जानकारी हमारी वेबसाइट www.relaxofootwear.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कुनो रिसेल्वे फुटवेयर लिमिटेड
हस्ताक्षर/ /
विकार कुमार टांक
कम्पनी सचिव

स्थान: दिल्ली
तिथि: 22.10.2019

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
Phone No: 0120-2626703
Ref: No.WR.ADV.2019-20: 7551-01
Date: 18-10-2019

वजोराबाद रोड़ शाखा
गर्भा गाडन, वजोराबाद रोड़, साहिबबाद,
गाजियाबाद, उ.प्र.-201005
Email: wazirabadroad.ghaziabad@bankofindia.co.in

कच्चा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

जिसका कि अशोहास्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आंकड़ों का प्रतिबन्धितकरण और पुनर्गठन तथा प्रेषित हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, वजोराबाद रोड़ शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(1) सख्तिगत प्रतिबन्धित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.06.2019 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री चंद्रन विज और श्रीमति कनिष्का विज, यूनिट आईडी जी-602 (गॉड अजनादा हेरिटेज) 6वीं मंजिल की, प्लाट नं. जीएच-01/बी, सेक्टर-74, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि रु. 37,72,511.34/- ब्याज 29.05.2019 से (रूपये सौतास लाख ब्याज हजार पांच सौ ग्यारह और चौतिस पैसे), को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनाता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया, वजोराबाद रोड़ शाखा को देय धनराशि रु. 37,72,511.34/- ब्याज 29.05.2019 से (रूपये सौतास लाख ब्याज हजार पांच सौ ग्यारह और चौतिस पैसे), को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था जो कि शुल्क सहित दे होना।

सूचित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध मार्ग के संबंध में, अधिनियम धारा 13 के उपाध 8 के प्रवचन के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
इंस्ट्रुमेंट संपत्ति यूनिट आईडी जी-602 (गॉड अजनादा हेरिटेज) 6वीं मंजिल की प्लाट नं. जीएच-01/बी, सेक्टर-74, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी में स्थित सम्पत्ति को श्री चंद्रन विज और श्रीमति कनिष्का विज के नाम है।
दिनांक: 18.10.2019
स्थान: गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

इन्ड्रप्रस्थ मेडिकल कोरपोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : पश्चिम विहार, तिहरी-मुंगेर रोड, नई दिल्ली 110 075
फोन: 91-11-26252858, 26252801, फैक्स: 91-11-26823629
ई-मेल: imcd@apollospitals.com, वेबसाइट: delhi.apollohospitals.com

सेबी (लिस्टिंग) दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 5 नवंबर 2019, को आयोजित की जायेगी जिसमें, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनअंकेखित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुसंधान की जायेगी। उपर्युक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://delhi.apollohospitals.com> पर और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

नई दिल्ली
22.10.2019

अजय कुमार सिंघल
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

(This is a public announcement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document)

Patel
Since 1949

PATEL ENGINEERING LIMITED

Patel Engineering Limited was incorporated as 'Patel Engineering Company Limited', a public limited company under the Companies Act, 1913, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on April 2, 1949. Pursuant to a resolution of our Shareholders dated September 30, 1999, the name of our Company was changed to 'Patel Engineering Limited' and a fresh certificate of incorporation was issued by the RoC on December 9, 1999. For details of changes in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 149 of the Letter of Offer.

Registered Office: Patel Estate SV Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102, Maharashtra, India; **Tel.:** +91 22 2676 7500
Corporate Office: B-26/1, Awer House, Veera Desai Industrial Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra, India; **Tel.:** +91 22 2676 7500;
Contact Person: Shobha Shetty, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: investors@pateleng.com, **Website:** www.pateleng.com, **CIN:** L99999MH1949PLC007039

PROMOTER OF THE COMPANY: RUPEN PATEL, PRAHAM INDIA LLP, RAAHITYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED (ERSTWHILE PATEL CORPORATION LLP)

ISSUE OF 229,947,908 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 9 EACH (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 8) PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 2,069.54 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON SEPTEMBER 18, 2019 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 385 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of the Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscription on September 26, 2019 and closed on October 10, 2019. The total number of Applications (net of cheque return) (including 950 ASBA Applications) received were 2,597 for 223,605,981 Equity Shares which includes Applications for subscriptions to additional Equity Shares. The Issue was subscribed to the extent of 97.24% (net of cheque return) of the Issue in terms of the number of Equity Shares applied.

The Basis of Allotment was finalised on October 17, 2019, in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange.

The Allotment Committee of the Board of Directors of the Company allotted 223,329,786 Equity Shares on October 18, 2019. All valid Applications (including ASBA Applications) have been considered for allotment. The break-up of Applications (including ASBA Applications) is given below.

1. Basis of Allotment:

Category	No. of valid applications (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares applied for and allotted Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Equity Shares allotted (A+B)
Shareholders	2,528	40,551,250	158,428,238	198,979,488
Renounees	48	17,203,230	7,147,068	24,350,298
Total	2,576	57,754,480	165,575,306	223,329,786

2. Information regarding Applications received (including ASBA Applications received):

Category	Applications		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Shareholders	2548	98.11	199,254,783	1,793,349,424.00	89.11	198,979,488
Renounees	49	1.89	24,351,198	219,160,682.00	10.89	24,350,298
Total	2597	100.00	223,605,981	2,012,510,106.00	100.00	223,329,786

An amount of ₹ 1,543.00/- will be borne by the Company towards postal and bank charges and excess amount of ₹ 7,820/- will be refunded to investors.

Out of a total of 2,597 Applications (including 950 ASBA Applications) received, 21 Applications were rejected on technical grounds.

The dispatch of allotment order cum refund intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on October 18, 2019. The listing application was filed with BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on October 18, 2019. The refund instruction to ICICI Bank Limited (Escrow Collection and Refund Bank) for electronic credit cases and to the Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds was given on October 17, 2019. The credit in respect of allotment in dematerialized form in National Securities Depository Limited & Central Depository Services (India) Limited, as applicable has been completed by October 22, 2019, to the respective demat accounts. The Equity Shares offered pursuant to the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from October 23, 2019 pursuant to their listing and trading approvals and shall be traded under the same ISIN INE244B01030 as the existing Equity Shares.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States"), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The offering to which this Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, this Letter of Offer/Abridged Letter of Offer and the enclosed CAF should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares within the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act. For further details, please refer to section titled "No offer in the United States" on page 9 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on page 373 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" Limited on page 376 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE" on page 377 of the Letter of Offer.

All capitalized terms used herein and not defined specifically shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated September 05, 2019 filed with the Stock Exchanges.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 ICICI SECURITIES LIMITED ICICI Centre, H.T. Park Marg, Churchoat, Mumbai - 400 020 Maharashtra, India. Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: patel.rights@icicisecurities.com Investor grievance E-mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact Person: Paval Kulkarni/Anurag Byas SEBI Registration No.: INM000011179	 LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4918 6200 E-mail: pateleng.rights@linkintime.co.in Investor grievance E-mail: pateleng.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058	Ms. Shobha Shetty PATEL ENGINEERING LIMITED Patel Estate SV Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102, Maharashtra, India Tel: +91 22 2676 7500 Email: investors@pateleng.com Website: www.pateleng.com Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, Amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF was submitted by the ASBA Investors.

Date : October 22, 2019
Place: Mumbai

For Patel Engineering Limited
Sd/-
Shobha Shetty
Company Secretary and Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

PRESSMAN

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(पब्लिक सेक्टर का उद्योगक)

एस. सी. ओ. - 43-44, सेक्टर - 5, हुडा मार्केट, गुडगाँव - 122001
दूरभाष 0124-2331860, 2331861 फैक्स 0124-2331861 ई मेल bm0877@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अशोहास्ताक्षर ने वित्तीय आंकड़ों का प्रतिबन्धितकरण और पुनर्गठन एवं प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिबन्धित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(1) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एलएनएल उधारकर्ताओं तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अशोहास्ताक्षर ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रवर्तन शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को दे लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रचार वाले बकाया राशि के अधीन हो।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाते का नाम (कर्जदार)	मौजूद सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बैंक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (₹. में)
श्री रमेश कुमार चावणू पुत्र श्री मनोहर लाल	29-04-2019	रिहायशी बिल्डिंग खसरा नं. 4664 / 308, मौजा सिवाना गुडगाँव, सूरत नगर में स्थित, कुल क्षेत्रफल 64 वर्ग गज, गुडगाँव, चाईड सोल कोड नं. 24039 दिनांकित 19.02.2007, यह सम्पत्ति श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल के नाम पर है। चौबीसों: पूर्य में - 14फीट रास्ता, 16फीट, परिधि में - 14 मीटर, उत्तर में - 41फीट अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में - 41 फीट राममठवाले।	₹ 9,56,052.09 (रु. नौ लाख छपन हजार बावन और पैसे नौ मात्र)
	18-10-2019		

दिनांक: 18.10.2019, स्थान: गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

PREMIER POLYFILM LTD.
Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.
CIN No. L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481 Email : premierpoly@premierpoly.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2019
(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Six Months	Six Months	Year Ended
		30/09/2019	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2018	31/03/2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	4,029	4,209	8,171	8,110	17,294
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	144	131	247	187	619
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	144	131	247	187	619
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	104	104	184	145	446
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	102	100	180	137	462
6	Equity Shares Capital (Face value Rs.5/- Per equity share)	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previous accounting year	3,106	2,770	3,106	2,770	2,770
8	Earning Per Share of Rs. 5/- each (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted	0.50	0.50	0.88	0.69	2.13

1. The above extract is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's Website: www.premierpoly.com.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 22nd October, 2019.

3. Figures for the previous Quarter/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the Current years figures.

For PREMIER POLYFILM LTD.
AMAR NATH GOENKA
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00061051

Place : New Delhi
Date : 22/10/2019

दिवाला एवं शोधन अक्षयता संहिता, 2016 के अधीन सम्पत्तियों की बिक्री

ई-नीलामी बिक्री सूचना

श्रीओम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड (पारिभाषण में)

पारिभाषक: श्री ब्रिजेंद्र सिंह देसवाल, (आइपी पंजीयन नं. IBBI/PA-003/IP-N00002/2016-2017/10021)
ई-मेल: liquidation.shreemwires@gmail.com, brijender@deswal.com फोन:- 9811414181

नीलामी की दिनांक व समय: मंगलवार, 26 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे

एलएनएल सूचना जारी है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायधिकरण, नई दिल्ली की धारा 33 के अधीन, नई दिल्ली की धारा 33 के अधीन, 11 जुलाई, 2019 (पारिभाषक द्वारा आदेश प्राप्त हुआ) पर 20 जुलाई, 2019 को एलएनएल की वेबसाइट पर जब अपलोड किया गया निम्नलिखित पारिभाषक की दिनांक के रूप में माना जाता है। को मिसर्स श्रीओम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के पारिभाषण आरम्भ करने का आदेश जारी किया है। यह सूचना दिनांक 11 जुलाई, 2019 के आदेश के तहत पारिभाषण राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पारिभाषक द्वारा मिसर्स श्रीओम वायर्स प्रा. लि. (पारिभाषण में) (CIN:U28939DL2011PTC214742) द्वारा स्वामित्व वाली अस्तित्वों तथा सम्पत्तियों, को पारिभाषण परिसम्पत्तियों का हिस्सा है, की बिक्री के संबंध में है।

पारिभाषक के कब्जे में नीचे उल्लेखित सम्पत्तियों की "जैसे हे जहां हे के आधार पर", "जैसे हे जो हे के आधार पर", बर्तन को कुछ भी हे के आधार पर तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार बिक्री के लिए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ncltauction.auctiontiger.net> के माध्यम से इच्छुक व्यक्तिओं/भागीदारों से 25 नवंबर, 2019 को सांघे 5 बजे तक ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अनुसूची

क्र.सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरम्भ मूल्य	बचाना राशि जमा (रु. में)	बोली बृद्धि मूल्य	ई-नीलामी की तारीख एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार/काल के साथ)	ईंप्यूडी जमा की 25 नवम्बर, 2019
1.	सम्पत्ति नं.-एच-1/702, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखोड़ा, विवाडी, जिसका अलवर (राजस्थान) में स्थित जिस्का क्षेत्रफल 9*29 वर्गमीटर	₹. 1,81,80,000/-	18.2 लाख	2 लाख	26 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	25 नवम्बर, 2019

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं -

- अनुमति प्राप्त सेवा प्रदाता मिसर्स ई-प्रोपॉर्नियट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (ऑनब्रान टाईम) के जर्चे "जैसे हे जहां हे, जैसे हे जो हे, बर्तन को कुछ भी हे के आधार पर" ई-नीलामी स